

Date: 7<sup>th</sup> February, 2025

To  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai – 400001

To  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, C-1, Block G  
Bandra Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai – 400 051

**Scrip Code: 544290**

**Scrip Symbol: EIEL**

**Sub: Newspaper Publication – Un-audited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2024**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have published the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2024 in the "Business Standard" (English) and the "Business Standard" (Hindi) today i.e. 7th February, 2025. Copies of the newspaper cuttings are attached.

Kindly take the above information on record.

Thanking you,

**For Enviro Infra Engineers Limited**

**(Piyush Jain)**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**A57000**

**Encl: a/a**



# EAM: Working to ensure deportees not mistreated

Opposition protests treatment meted out to Indians by US authorities

ARCHIS MOHAN  
New Delhi, 6 February

External Affairs Minister S Jaishankar told Parliament on Thursday the government was engaging with the US administration "to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight".

Jaishankar's statement in Parliament came in the wake of persistent Opposition protests in Parliament at the handcuffing and shackling of the 104 undocumented Indians the US sent back in a military aircraft, which landed in Amritsar on Wednesday.

Both Houses were adjourned several times during the course of their proceedings. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Washington next week. In his statement in the two Houses, Jaishankar said 15,668 illegal Indian immigrants had been deported to India from the US between 2009 and 2024.

Jaishankar indicated the restraining procedures used by the US authorities, especially its Immigration and Customs Enforcement (ICE), which organises and executes deportations, predate 2014.

Jaishankar told Parliament such "restraint procedure" had been the "standard operating procedure" for deportation by aircraft used by the ICE since 2012.


The minister said India's "focus should be to crack down strongly on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveller".

He said law-enforcement agencies would take preventive action based on information provided by returning deportees. Jaishankar said the government had been informed by the ICE "that women and children are not restrained. And the



## KEEPING TRACK

Indian citizens deported annually from US (chartered and commercial)



Source: Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs

needs of deportees related to food or other necessities, including possible medical emergencies (were taken care of)".

"During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as the military aircraft. There has been no change from past procedure, I repeat, no change, from past pro-

cedure for the flight undertaken by the US on February 5, 2025," he said. Jaishankar said the numbers for 2009-14 from the US Department of Homeland Security were much higher.

According to a PTI report from Uttar Pradesh, Rakshit Baliyan (19) of Muzaffarnagar district and Gurpreet Singh (24) from Pilibhit district were among the 104 Indians deported from the US.

Baliyan's father, Sudhir Baliyan, a retired Army trooper, told PTI that his son had gone to the US seven months ago and was working in a private company. Sudhir Baliyan, who owns 20 bighas of agricultural land, said his son would continue his education. Kulbir Singh, father of Devindra Singh, the other deportee from Muzaffarnagar, said his son had left for the US two months ago.

He was caught shortly after arriving in the US and remained in custody at a detention camp until his deportation. Kulbir Singh, a small farmer with 15 bighas of agricultural land, paid ₹40 lakh to agents to send his son abroad.

With PTI inputs

# World seeing 'Bharat rate of growth': PM

ARCHIS MOHAN  
New Delhi, 6 February

On a day marked by frequent use of words such as "handcuffing" and "shackling" in Parliament, Prime Minister Narendra Modi (pictured) on Thursday slammed the earlier Congress governments for "shackling" India's economy with their "licence permit raj".

The PM said economists coined the phrase "Hindu rate of growth" to describe the country's economic progress during the tenure of the Congress governments, which became a mark of humiliation for an entire community because of the financial mismanagement perpetrated by "one family". Modi said the world was now witness to the "Bharat rate of growth", with India emerging as the fastest-growing major economy. Economist Raj Krishna coined the term

"Hindu rate of growth" in 1978 to describe India's sub-4 per cent growth from 1950s onwards.

In his reply in the Rajya Sabha on the Motion of Thanks on the President's address, the PM said his government is committed to strengthening the middle class and neo-middle class, and with that intent the Budget has reduced the income tax to "zero" on income up to ₹12 lakh. The Union Budget 2025-26, presented on February 1, announced easing of tax slabs and raising the tax-free income threshold under Section 87A of the Income Tax Act from ₹7 lakh to ₹12 lakh.

Modi criticised the Congress government's excesses during the Emergency, and said it had "handcuffed" and "chained" leaders, such as George Fernandes and others, including Members of Parliament then. During the

course of the day, Opposition MPs protested the handcuffing and shackling of 104 Indians deported from the US, who landed in Amritsar on Wednesday.

The PM said the Congress nursed "hatred and anger" towards B R Ambedkar, and added that this was reflected in not giving due recognition like the "Bharat Ratna" to the architect of India's Constitution. He said the Congress is now forced to say "Jai Bhim", and also get choked while speaking so. Modi said Ambedkar had correctly diagnosed that Dalits do not own land, and were unlikely to do so even if they had money, and only industrialisation could help them. However, the policies of the Congress governments meant that the manufacturing sector suffered.

Modi said those opposing the Uniform Civil Code (UCC) should study the Constitution. "Some may wonder what this UCC is all about. But, after reading the debates of the Constituent Assembly, one would realise that it is in that same spirit," he said.



## 2 MORE EXIT POLLS PREDICT BIG WIN FOR BJP IN DELHI

On Thursday, two more pollsters announced predictions for the Delhi Assembly election. Both Axis-My India and Today's Chanakya predicted a win for the Bharatiya Janata Party (BJP)-led National Democratic Alliance (NDA) in the 70-member Delhi Assembly.

The Axis-My India's data also showed that Aam Aadmi Party (AAP) chief Arvind Kejriwal was the most popular chief ministerial face with 33 per cent respondents favouring him, followed by BJP's Parvesh Verma (13 per cent), BJP's Manoj Tiwari (12 per cent) and Delhi CM and AAP leader Atishi (3 per cent).

COMPILED BY ARCHIS MOHAN

### WHAT THEY SAY

Seats and vote shares in parenthesis

Agencies	BJP+	AAP	INC	Others
Axis-My India	45-55 (48%)	15-25 (42%)	0-1 (7%)	0-1 (3%)
Today's Chanakya	51 (+/- 6 seats) (49% +/- 3%)	19 (+/- 6 seats) (41% +/- 3%)	-	0 (+/- 3 seats) (10% +/- 3%)

Sources: Respective social media handles of above pollsters

## Rajnath, Hegseth agree to boost India-US defence ties

Defence Minister Rajnath Singh and his American counterpart Pete Hegseth on Thursday agreed to work on an ambitious agenda, including in the areas of operational, intelligence, logistics and industrial cooperation, to further boost the India-US strategic partnership.

Singh said Hegseth reviewed various aspects of the bilateral defence ties in a phone conversation that came less than a week before Prime Minister Narendra Modi's planned trip to Washington. In a post on X, Singh said he and Hegseth reviewed the ongoing India-US defence cooperation and explored ways to further deepen the relationship.

"We reviewed the ongoing defence cooperation and explored ways and means to expand and deepen the India-US bilateral defence relationship," he said.

PTI

# 'TOP' production may jump this season

SANJEEB MUKHERJEE  
New Delhi, 6 February

In what could be of some comfort to the government in its fight against inflation, production of three major vegetables namely tomato, onions and potatoes that comprise the trinity of TOP is expected to be higher in 2024-25 season as compared to the previous year, the first advanced estimate released on Thursday showed.

The estimates showed that tomato production in 2024-25 season is estimated at 21.54 million tonnes which is 1 per cent more than the previous year, while produc-

## CROP MATH

Horticulture production in million tonnes

	2023-24**	2024-25*	% chg
Onion	24.26	28.87	19.0
Potato	57.05	59.57	4.4
Tomato	21.32	21.54	1.0
Total vegetables	207.2	214.56	3.6
Total fruits	112.97	113.22	0.2

\*According to first advanced estimate \*\*According to final estimate Source: Department of Agriculture

tion of onion is projected at 28.87 million tonnes in 2024-25 which is almost 19 per cent more than 2023-24.

Production of potatoes is projected at 59.57 million tonnes in 2024-25 which is almost 4.4 per cent more than the same period last year.

The three together comprise almost 51 per cent of the total vegetables expected to be produced in the country in 2024-25. Overall, vegetables production in India in 2024-25 is estimated at 214.56 million tonnes which is 3.6 per cent more than 2023-24 while

fruits production is estimated at 113.22 million tonnes which is 0.2 per cent more than the same period the previous year. In totality, horticulture crops production is expected at around 362.09 million tonnes in 2024-25 as per the first advance estimates, which is about 7.34 million tonnes (2.07 per cent) higher as compared to final estimates of 2023-24.

This would mean that once again, India's horticulture crops production at 362.09 million tonnes would exceed its food grains production which in 2023-24 (July to June) was estimated at 332.29 million tonnes.



## ENVIRO INFRA ENGINEERS LIMITED

CIN: L45200DL2009PLC191418

Regd. Office: Unit No. 201, 2nd Floor, RG Metro Arcade, Sector-11, Rohini, New Delhi-110085

Phone :011-40591549; Email: ho@eiel.in; Website: www.eiel.in



For more details scan the QR code

### EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS STANDALONE AND CONSOLIDATED FOR THE QUARTER AND NINE-MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

(all amounts are in lakhs, unless otherwise stated)

Sr No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ending	Nine Months ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Quarter ending	Nine Months ended	Corresponding 3 months ended in the previous year
		31-12-2024	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2024	31-12-2023
1	Total income from operations (Net)	25,248.63	67,420.66	15,285.36	25,279.41	68,180.09	15,240.35
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	4,796.08	13,985.84	2,625.04	4,831.88	14,117.63	2,423.66
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	4,796.08	13,985.84	2,625.04	4,831.88	14,117.63	2,423.66
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	3,630.16	10,270.29	1,954.33	3,672.39	10,305.88	1,737.70
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,632.23	10,276.50	1,957.07	3,674.46	10,312.09	1,740.43
6	Equity Share Capital	17,553.00	17,553.00	2,737.00	17,553.00	17,553.00	2,737.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (face value of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	Basic (₹) [not annualized]	2.57	7.26	1.44	2.59	7.28	1.32
	Diluted (₹) [not annualized]	2.57	7.26	1.44	2.59	7.28	1.32

#### Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the Quarterly and Nine-Months Ended Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine-Months Ended Financial Results are available on the website of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange Limited viz www.nseindia.com, BSE Limited viz bseindia.com and company website viz www.eiel.in.
- The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 6th February, 2025 and then approved by the Board of Directors in their meeting held on the same date. The statutory auditor have carried out a Limited Review of the aforesaid result.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-  
Sanjay Jain  
Chairman and Whole Time Director  
DIN: 02575734

Place: New Delhi  
Date: 06.02.2025

# ITC Limited

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2024

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		3 Months ended 31.12.2024	9 Months ended 31.12.2024	Corresponding 3 Months ended 31.12.2023	3 Months ended 31.12.2024	9 Months ended 31.12.2024	Corresponding 3 Months ended 31.12.2023
1	Total Income from continuing operations	19376.86	58400.87	17997.88	20945.82	63125.85	19308.65
2	Net Profit / (Loss) for the period from continuing operations (before tax and Exceptional items)	6545.61	19584.01	6520.21	6536.06	20090.82	6465.57
3	Net Profit / (Loss) for the period from continuing operations before tax (after Exceptional items)	7073.57	20111.97	6520.21	6536.06	20090.82	6465.57
4	Net Profit / (Loss) for the period from continuing operations after tax	5421.36	15217.14	5418.79	4809.74	14881.20	5237.58
5	Net Profit / (Loss) from discontinued operations for the period after tax	216.89	416.90	153.28	203.44	363.40	168.94
6	Profit for the period [4+5]	5638.25	15634.04	5572.07	5013.18	15244.60	5406.52
7	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5914.59	15312.94	5814.49	5436.30	15021.33	5705.49
8	Equity Share Capital	1251.17	1251.17	1247.56	1251.17	1251.17	1247.56
9	Earnings Per Share (of ₹1/- each) (not annualized):						
	1. Basic (for continuing operations) (₹):	4.34	12.18	4.35	3.79	11.73	4.15
	2. Diluted (for continuing operations) (₹):	4.33	12.16	4.33	3.78	11.71	4.13
	3. Basic (for discontinued operations) (₹):	0.17	0.33	0.12	0.16	0.29	0.13
	4. Diluted (for discontinued operations) (₹):	0.17	0.33	0.12	0.16	0.29	0.13
	5. Basic (for continuing and discontinued operations) (₹):	4.51	12.51	4.47	3.95	12.02	4.28
	6. Diluted (for continuing and discontinued operations) (₹):	4.50	12.49	4.45	3.94	12.00	4.26

#### Note:

- The above is an extract of the detailed format of the Statements of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Unaudited Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee, and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 6th February, 2025. The full format of the Statements of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website (www.itcportal.com) and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and The Calcutta Stock Exchange Limited (www.cse-india.com).
- The Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench (NCLT), vide Order dated 4th October, 2024, sanctioned the Scheme of Arrangement amongst the Company and ITC Hotels Limited (ITCHL) and their respective shareholders and creditors under Sections 230 to 232 read with the other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Scheme") for demerger of the Hotels Business of the Company into ITCHL; the certified copy of which was received on 16th December, 2024. The Company and ITCHL have mutually acknowledged that all the conditions specified in Clause 28 of the Scheme have been fulfilled and satisfied, including filing of the aforesaid Order with the Registrar of Companies, West Bengal, and accordingly the Appointed Date and Effective Date of the Scheme is the first day of the following month i.e. 1st January, 2025. Upon the Scheme becoming effective, the Hotels Business (along with all assets and liabilities thereof, excluding ITC Grand Central, Mumbai, as at the Appointed Date) and the investments held by the Company in Hospitality entities viz., Fortune Park Hotels Limited, Bay Islands Hotels Limited, Landbase India Limited, WelcomHotels (Lanka) Private Limited, Srinivasa Resorts Limited, International Travel House Limited, Gujarat Hotels Limited and Maharaja Heritage Resorts Limited, along with certain identified Corporate assets and liabilities have been transferred to ITCHL on a going concern basis. In terms of the requirements of Accounting Standards (Ind AS), the assets and liabilities transferred and the results of the Hotels Business of the Company (excluding ITC Grand Central, Mumbai) have been presented as 'Discontinued Operations'. Consequently, the financial results of the Company for the comparative periods have been presented accordingly.
- The Company on 18th December, 2024 acquired 1,52,32,129 Equity Shares of ₹2/- each of EIH Limited and 34,60,829 Equity Shares of ₹2/- each of HLV Limited, from Russell Credit Limited, a wholly owned subsidiary of the Company, at their respective book value. The fair value gain of ₹527.96 Crores upon acquisition has been disclosed as an 'Exceptional Item' in Standalone Financial Results.
- The Board of Directors of the Company have declared an Interim Dividend of ₹6.50 per Ordinary Share of ₹1/- each (2024 - ₹6.25 per Ordinary Share). The Record Date fixed for the purpose of determining entitlement of the Members for the Interim Dividend is Wednesday, 12th February, 2025 and such Dividend will be paid between Thursday, 6th March, 2025 and Saturday, 8th March, 2025 to those Members entitled thereto.
- The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been completed and the related Reports have been forwarded to the Stock Exchanges. These Reports do not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2024 which needs to be explained.
- Figures for the corresponding previous periods are re-arranged, wherever necessary, to conform to the figures of the current period.

Registered Office:

Virginia House, 37 J.L. Nehru Road, Kolkata 700 071, India  
Dated: 6th February, 2025  
Place: Kolkata, India

For and on behalf of the Board

Sd/-  
Director & Chief Financial Officer  
(DIN : 01804345)

Sd/-  
Chairman & Managing Director  
(DIN : 00280529)

Website: www.itcportal.com | E-mail: enduringvalue@itc.in  
Phone: +91-33-2288 9371 | Fax: +91-33-2288 0655 | CIN: L16005WB1910PLC001985



FMCG | Paperboards & Packaging | Agri Business | Information Technology





# PG ELECTROPLAST LIMITED

(CIN L32109DL2003PLC119416)

Regd. Office : DTJ209, DLF Tower B, Jasola, New Delhi-110025  
Tel-Fax: 011-41421439; Email: investors@pgel.in; Website: www.pgel.in

## EXTRACTS OF UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2024

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended Dec 31, 2024	Quarter Ended Dec 31, 2023	Year Ended March 31, 2024	Quarter Ended Dec 31, 2024	Quarter Ended Dec 31, 2023	Year Ended March 31, 2024
1	Total Income from Operations	36,208.31	339,262.83	141,771.89	96,769.35	53,188.46	274,649.53
2	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	3,139.05	2,862.22	10,359.60	5,357.33	2,598.97	17,646.65
3	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	2,394.89	2,168.26	7,805.49	3,954.39	1,917.87	13,490.02
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income Comprehensive Income (after tax)]	2,403.76	2,150.86	7,782.28	3,942.03	1,900.06	13,470.13
5	Equity Share Capital of Face Value Rs.1/- each	2,830.94	2,602.46	2602.62	2830.94	2602.46	2602.62
6	Reserves (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet as on 31st March 2024			91,753.11			101,205.53
7	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) Basic	0.90	0.84	3.17	1.47	0.72	5.47
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) Diluted	0.88	0.83	3.13	1.45	0.71	5.41

Note:- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com & www.nseindia.com and the website of the Company at www.pgel.in.

For PG Electroplast Limited

Sd/-  
Vikas Gupta  
Managing Director -Operations

Place: Greater Noida  
Dated: February 06, 2025



**Truhome FINANCE**

**ट्रुहोम फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)  
प्रधान कार्यालय: लेवल -3, खोखार टावर, ईस्ट विंग सी -2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051; दूरभाष: 1800 102 3435; वेबसाइट: <http://www.truhomefinance.in>  
पंजीकृत कार्यालय: श्रीनिवास टॉवर, प्रथम तल, द्वार नं. 5, पुराना नं.11, इंदिरा लेन, सेक्टर-30, अलखरोड, तेरवाण्डे, चेन्नई-600018; शाखा कार्यालय: प्लॉट नं. 245 एवं 246, दुसरी मंजिल, ओम्कार टॉवर, हुनुमान नगर-डी, आग्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021

**परिशिष्ट-IV-अ [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना**

वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना  
एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रॉ, बंधककर्ता/ओंमें एवं जमानती/यों को सूचना दी जाती है कि ट्रुहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा ट्रुहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारों एवं जमानतियों से ट्रुहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के बकायों की वसूली के लिए "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" आधार पर 24.02.2025 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. के बीच नीचे दिये गये संक्षिप्त विवरण के अनुसार नीलामी अनुसूची में की जायेगी। कर्जदारों/बंधककर्ताओं तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मूल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा बोली वृद्धि भी निम्नवत दी गयी है :

कर्जदारों/सहकर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के नाम	13(2) भाँग सूचना की तिथि एवं राशि	अब तक की रपे राशि	आरक्षित मूल्य (₹) एवं संविदा वृद्धि	जमा धरोहर राशि (इंएमडी) का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पत्तियों का विवरण
ऋण खाता सं. STUHUDI0000051 एवं SBTHUDI0000050 1. श्री राजकुमार मेघवाल पुत्र श्री गणेश लाल मेघवाल (कर्जदार), 2. श्रीमती जशोदा मेघवाल पत्नी श्री राजकुमार मेघवाल (सह-कर्जदार) 3. श्री गणेश पुत्र श्री भेरू लाल जी मेघवाल (सह-कर्जदार) पता: ग्राम नाहर भागवा, तहसील-मावली, उदयपुर, राजस्थान-313201 कब्जे की तिथि और प्रकार 10 अगस्त, 2024 एवं भौतिक कब्जा	31-01-2020 ऋण खाता STUHUDI0000051 में ₹. 12,01,148/- और SBTHUDI0000050 में ₹. 06,19,331/- (दोनों खातों में कुल) ₹. 18,20,479/- (अठारह लाख बीस हजार चार सौ उन्नीस रुपए मात्र) दिनांक 27.01.2020 तक देय और बकाया, तथा यहाँ उल्लिखित ब्याज एवं आकस्मिक व्यय, लागतें आदि	₹. 12,53,750/- (रुपये बारह लाख तिपन्न हजार सात सौ पचास मात्र) तिथि 30 जनवरी, 2025 तक	₹. 8,75,000/- (रुपये आठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) बोली वृद्धि ₹. 10,000/- और इसके गुणकों में जमा धरोहर राशि (इंएमडी) (₹.) ₹. 87,500/- (रुपये सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) इंएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 22 फरवरी, 2025 समय : सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक	इंएमडी आरटीजी/एनईएफटी के माध्यम से नीचे वर्णित खाते में जमा की जानी है : बैंक का नाम : एक्सिस बैंक लिमिटेड शाखा : बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई बैंक खाता नं. : चालू खाता नं. : 911020045677633 आईएफएससी कोड : UTIB0000230	24 फरवरी, 2025 तथा समय : 11.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. तक	करमर केवर सं. 022-40081572 मुकेश गोस्वामी-6375234533, श्री राजेश कुमार चौधरी 9460117810 श्री हितेश सोनी +91-9828230007 सम्पत्ति की निरीक्षण की तिथि : 18.02.2025 समय : 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.

सम्पत्ति का विवरण  
ग्राम पंचायत नांदेवल, पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान-313201 के अंतर्गत सम्पत्ति का समस्त भाग, माप: - 950.00 वर्ग मीटर। सीमाएं:- उत्तर- रास्ता, दक्षिण-प्रेम चौधरी का बाड़ा, पूर्व- गोवर्धन मेघवाल का प्लॉट, पश्चिम- नाथू और गोवर्धन मेघवाल और गणेश का प्लॉट।

• बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों, बोली प्रपत्र व अन्य के लिए ट्रुहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) की वेबसाइट भी देखी जा सकती है।  
• ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट: <https://www.bankeauctions.com> पर आयोजित की जाएगी, पता: - प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा- 122003। किसी भी सहायता के लिए, आप ईमेल आईडी: [tn@clindia.com](mailto:tn@clindia.com), [support@bankeauctions.com](mailto:support@bankeauctions.com) पर ईमेल लिख सकते हैं। आप नीलामी एजेंसी से टेलीफोन: +91 -124-4302020 फेक्स: +91 -124-4302020 [www.clindia.com](http://www.clindia.com) पर भी संपर्क कर सकते हैं।  
• किसी भी प्रश्न के मामले में बोलीदाता ऊपर उल्लिखित तालिका में उल्लिखित अधिकारी से संपर्क कर सकता है।  
नोट : कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति ऋणदाता सभी कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को स्पॉड/पंजीकृत डाक/कुरियर द्वारा बिक्री नोटिस जारी करने जा रहा है। यदि यह किसी भी पक्ष को प्राप्त नहीं होता है, तो बिक्री नोटिस के इस प्रकाशन को सेवा के एक प्रतिस्थापित तरीके के रूप में माना जा सकता है।

संक्षिप्त विवरण  
सम्पत्ति का विवरण, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को ई-नीलामी की तिथि अर्थात् 24-02-2025 से पहले ऊपर उल्लिखित राशि को अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति को नीलाम/बेच दिया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूली की जाएगी।  
स्थान: उदयपुर  
दिनांक: 07-02-2025  
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी-ट्रुहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

**उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग, उत्तर प्रदेश**  
C-1, विक्रान्त खण्ड गोमती नगर, लखनऊ  
संख्या: मेमो दिनांक 31.01.2025  
सेवा में,  
1. Mr. Ashok Goel, CEO, M/s Jaipuria Buildcon, 507, K.M. Tower Radison Hotel Kaushambai, Ghaziabad. Also At: 16, Shankar, Vihar, Main Vikas Marg, Delhi-110092  
2. M/s Deutsche, Post Bank Home Finance Ltd. 129A-129D, Ist Floor, Vipul Agora, M.G.Road, Gurgaon-122002  
.....विपक्षीय  
परिवाद संख्या 69/2016  
Suraj Singh .....परिवादी  
**बनाम**  
M/s Jaipuria Buildcon Pvt. Ltd. & anr. ....विपक्षी  
उपरोक्त परिवादी ने धारा 17 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राज्य आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया है।  
अतः आप दिनांक 24.02.2025 को 10:30 बजे पूर्वानुह तक लिखित कारण बताये कि उक्त परिवादी क्यों न राज्य आयोग द्वारा स्वीकार की जाये एवं दिनांक 10:30 बजे पूर्वानुह तक इस आयोग में स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिकृत द्वारा उपस्थित हो, उसी दिन इस मामले पर सुनवाई होगी। यदि आप निर्धारित तिथि एवं समय पर कारण बताने के लिए उपस्थित नहीं होते है तो सुनवाई एकतरफा होगी।  
**निबन्धक**  
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग 3090 सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ

**PUBLIC NOTICE**  
This is to inform the general public that Smt. Renu Jain & Shri Ajay Jain are absolute owners of the Entire Ground Floor, without roof rights part of freehold Built-up property on Plot No. 6, land measuring area 186.22 sq. yds., out of Khasra No. 640/15/2/3/6 Situated in the area of Village Rajpur Chhawri Delhi presently known as Maa Kalyani Kunj Delhi (hereinafter referred to as the "said property"). Ownership was acquired through a Sale Deed Dated 15.07.2010, which was duly registered with the office of Sub Registrar-VI A Delhi, as doc no. 9968, Book 1, Vol No. 2923, Page 46 to 55 on 15.07.2010 as per the Owner's Bonafide Version, the original documents for the entire built-up property, including the (1) GPA dated 01.09.1993,(2) Sale Deed dated 16.04.1996 (3) Sale Deed dated 05.12.2005 (4) Sale Deed dated 06.11.2009 (5) Sale Deed dated 06.11.2009 are currently unavailable for verification, as they have been lost/misplaced. A lost report regarding these documents has been filed with the Delhi Police Crime Branch, vide L.R. NO. 2546590/2025 dated 31.01.2025. The owner has asserted that the said property is free from all encumbrances. An agreement to sell has been executed for the sale of the said property to Sh. Gajendra Singh & Ms. Sanyogita Soni, and the owner intends to create a charge, viz mortgage or otherwise, on the property for the purpose of availing a housing loan or credit facility from The State Bank Of India, RACIP Naraina, Delhi, any person(s) or financial institution claiming any right or interest or having any objection regarding the said property based on the aforementioned lost documents is hereby requested to contact the aforementioned SBI branch as well as the undersigned at the email address ranjanjha318@gmail.com within 10 days from the date of publication of this notice failing which, any such claim shall be deemed null and void, and the title to the property shall be considered clear, marketable, free from defects or encumbrances, and open to creating an equitable mortgage.  
Ranjan Kumar Jha (Advocate)  
Chamber:231, Western Wing Tis Hazari Court Delhi-110054, Mobile : 9990647933

**प्ररूप संख्या आईएनसी-26**  
(कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार जारी है)  
**केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष**  
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उभार (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ख) के मामले में  
और  
**भारतीय टैलीमीडिया लिमिटेड**  
(CIN:U92200DL2006PLC156075)  
जिसका पंजीकृत कार्यालय: भारतीय क्रैस रोड, 1, नैलसन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेज-II, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली-110070 में है, के मामले में  
.....अवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता  
एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह अवेदक कंपनी के क्षेत्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन अवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय सरकार की क्षेत्र दिल्ली" से "दक्षिण भारत" में स्थानांतरित करने के लिए 31 जनवरी, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विधि प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के निर्देशों और एक्सप्लानेशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अप्परेल चमन, सीओओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति अवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे।  
भारतीय टैलीमीडिया लिमिटेड  
भारतीय क्रैस रोड, 1, नैलसन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेज-II, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली-110070  
अवेदक के लिए और आवेदक की ओर से  
**भारतीय टैलीमीडिया लिमिटेड**  
हस्ता./-  
सिद्धार्थ शर्मा  
दिनांक: 06.02.2025 (प्रबंध निदेशक एण्ड सीओओ)  
स्थान: नई दिल्ली डीआईएन : 10319109

**विपुल लिमिटेड**  
पंजीकृत कार्यालय : युनियन सं. 201, सी-50, मालवीय नगर, दिल्ली-110017  
कारपोरेट कार्यालय: विपुल टेकस्वायर, गॉल्ड कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुरुग्राम-122009  
CIN No.: L65923DL2002PLC167607, दूरभाष सं.: 0124-4065500 वेबसाइट: [www.vipulgroup.in](http://www.vipulgroup.in)

**31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तृतीय तिमाही एवं नौ महीने के लिए एकल अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश**  
(₹. लाख में, प्रति शेयर अर्जन के अलावा)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त नौ महीने के लिए		31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु अलेखा परीक्षित
		31.12.2024 अलेखा परीक्षित	30.09.2024 अलेखा परीक्षित	31.12.2023 अलेखा परीक्षित	31.12.2023 अलेखा परीक्षित	
1	परिचालन से कुल आय	1,329.79	1,796.31	14,791.60	4,855.93	16,381.32
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	451.27	217.18	8,247.75	900.61	6,161.45
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	451.27	217.18	8,247.75	900.61	6,161.45
4	करोपरान्त अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	451.27	217.18	6,422.43	900.61	4,336.13
5	इन्किटी शेयर पूंजी	1,409.59	1,409.59	1,199.84	1,409.59	1,199.84
6	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय (अवधि (करोपरान्त) के लिए लाभ/(हानि) सम्मिलित) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरान्त)	451.27	217.18	6,422.43	900.61	4,336.13
7	प्रति शेयर उपार्जन (₹. 1/- प्रत्येक) (जारी एवं बंद परिचालन के लिए) - बैसिक - डाइल्यूटेड	0.34 0.34	0.18 0.18	5.35 5.35	0.75 0.75	3.61 3.61

**31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तृतीय तिमाही एवं नौ महीने के लिए समेकित अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश**

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त नौ महीने के लिए		31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु अलेखा परीक्षित
		31.12.2024 अलेखा परीक्षित	30.09.2024 अलेखा परीक्षित	31.12.2023 अलेखा परीक्षित	31.12.2023 अलेखा परीक्षित	
1	परिचालन से कुल आय	1,408.64	1,885.85	17,067.57	5,149.36	18,868.17
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	373.14	114.39	8,142.94	668.45	5,794.22
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	373.14	114.39	8,142.94	668.45	5,794.22
4	करोपरान्त अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	373.14	114.39	6,317.62	668.45	3,078.16
5	इन्किटी शेयर पूंजी	1,409.59	1,409.59	1,199.84	1,409.59	1,199.84
6	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय (अवधि (करोपरान्त) के लिए लाभ/(हानि) सम्मिलित) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरान्त)	373.14	114.39	6,317.62	668.45	3,078.16
7	प्रति शेयर उपार्जन (₹. 1/- प्रत्येक) (जारी एवं बंद परिचालन के लिए) - बैसिक - डाइल्यूटेड	0.31 0.31	0.10 0.10	5.27 5.27	0.56 0.56	2.57 2.57

**टिप्पणी:**  
उपर उल्लिखित विवरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 ("सूचीकरण अधिनियम") के अधिनियम 33 के अधीन बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास दायर 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तृतीय तिमाही तथा नौ महीने के एकल तथा समेकित अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश है। 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तृतीय तिमाही एवं नौ महीने के एकल एवं समेकित अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट [www.vipulgroup.in](http://www.vipulgroup.in) पर उपलब्ध है।  
लेखा परीक्षक कर्मिणी द्वारा 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तृतीय तिमाही तथा नौ महीने के एकल एवं समेकित अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा की गई है एवं उनकी तिमाहियों पर बुधवार, 05 फरवरी, 2025 को आयोजित निदेशक मंडल द्वारा अपनी संबद्ध बैठक में उसे अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अधिनियम के अधिनियम 33 की आवश्यकताओं के अनुसार संविधिक लेखा परीक्षक द्वारा 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तृतीय तिमाही एवं नौ महीने के एकल एवं समेकित अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है तथा बोर्ड द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया है।  
उपरोक्त परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित अनुमोदित तथा परिणाम तथा परिणाम रिपोर्टों के साथ पठित उसके अधीन जारी प्राथमिक नियमों तथा भारत में सहायक तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा रिपोर्टों के अनुसार तैयार किया गया है।  
संक्षिप्त परिणाम कंपनी की वेबसाइट यानी [www.vipulgroup.in](http://www.vipulgroup.in) तथा बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों यानी [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तथा [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।  
इसे नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड की स्कैनिंग द्वारा भी देखा जा सकता है:

**ENVIRO INFRA ENGINEERS LIMITED**  
CIN: L45200DL2009PLC191418  
Regd. Office: Unit No. 201, 2nd Floor, RG Metro Arcade, Sector-11, Rohini, New Delhi-110085  
Phone :011-40591549; Email: [ho@eiapl.in](mailto:ho@eiapl.in); Website: [www.eiapl.in](http://www.eiapl.in)

**EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS STANDALONE AND CONSOLIDATED FOR THE QUARTER AND NINE-MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024**  
(all amounts are in lakhs, unless otherwise stated)

Sr No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ending	Nine Months ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Quarter ending	Nine Months ended	Corresponding 3 months ended in the previous year
		31-12-2024 Unaudited	31-12-2024 Unaudited	31-12-2023 Unaudited	31-12-2024 Unaudited	31-12-2024 Unaudited	31-12-2023 Unaudited
1	Total income from operations (Net)	25,248.63	67,420.66	15,285.36	25,279.41	68,180.09	15,240.35
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,796.08	13,985.84	2,625.04	4,831.88	14,117.63	2,423.66
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,796.08	13,985.84	2,625.04	4,831.88	14,117.63	2,423.66
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,630.16	10,270.29	1,954.33	3,672.39	10,305.88	1,737.70
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,632.23	10,276.50	1,957.07	3,674.46	10,312.09	1,740.43
6	Equity Share Capital	17,553.00	17,553.00	2,737.00	17,553.00	17,553.00	2,737.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (face value of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	Basic (₹) [not annualized]	2.57	7.26	1.44	2.59	7.28	1.32
	Diluted (₹) [not annualized]	2.57	7.26	1.44	2.59	7.28	1.32

**Notes:**  
(i) The above is an extract of the detailed format of the Quarterly and Nine-Months Ended Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine-Months Ended Financial Results are available on the website of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange Limited viz [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), BSE Limited viz [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and company website viz [www.eiapl.in](http://www.eiapl.in).  
(ii) The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 6th February, 2025 and then approved by the Board of Directors in their meeting held on the same date. The statutory auditor have carried out a Limited Review of the aforesaid result.

**For and on behalf of Board of Directors**  
Sd/-  
Sanjay Jain  
Chairman and Whole Time Director  
DIN: 02575734

Place: New Delhi  
Date: 06.02.2025